



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1932 (श0)  
(सं0 पटना 39) पटना, शुक्रवार, 11 फरवरी 2011

सं० 2/सी0- 109/2009 -सा0 प्र0-1031  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

27 जनवरी 2011

मो0 परवेज उल्लाह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1209/04 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया को इंदिरा आवास योजना हेतु आवंटित राशि 1,75,65,500 रु0 राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं जमाकर डेहटी पैक्स में जमा कर इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राशि के दुरुपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रशस्त करने तथा इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरतने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 353, दिनांक 29 जनवरी 2009 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या 9531, दिनांक 23 सितम्बर 2009 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।

2. मो0 परवेज उल्लाह, द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध दायर सी0 डब्ल्यु0 जे0 सी0 संख्या 2342/2010 में दिनांक 16 अगस्त 2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मो0 परवेज उल्लाह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक इन्हें किसी वित्तीय जिम्मेवारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

4. मो0 परवेज उल्लाह की निलंबन अवधि के विनियमन एवम् वेतन के संबंध में इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवम् फौजदारी मुकदमे के फलाफल के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति मो0 परवेज उल्लाह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक

---

1209/04 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया संप्रति मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सिद्धनाथ राम,  
सरकार के अवर सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 39-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>